



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 1978/ आषाढ़ 21, 1900

No. 339] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 1978/ASADHA 21, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1978

का. आ. 442(अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित अपराधों को ऐसे अपराध निर्धारित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया जाना है, नामतः :—

(क) मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 (1939 का 4) की धारा 112 के अन्तर्गत  
दण्डनीय अपराध

(ख) भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 40 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध ; और

(ग) उपर्युक्त खण्ड (क) तथा (ख) में उल्लिखित एक या अधिक अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्न, दृष्टिकोण और षडयंत्र तथा उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न हुई, उसी कार्रवाई के दौरान किया गया अन्य कोई अपराध ।

[सं. 228/11/78-ए. बी. डी. (2)]

रमेश चन्द्र मिश्र, अपर सचिव

# MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administration Reform)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 1978

**S.O. 442(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 (25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences as the offences which are to be investigated by the Delhi Special Police Establishment, namely:—

- (a) Offences punishable under section 112 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) ;
- (b) offences punishable under section 40 of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910) ; and
- (c) attempts, abetments and conspiracies in relation to, or in connection with one or more of the offences mentioned in clauses (a) and (b) above, and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[No. 228/11/78-AVD. II]

R. C. MISRA, Addl. Secy.